

੧੬ ਸਤਵੰਤਰੀ ੨੦
 P.O. Box 85
 Astoria, Oregon
 U.S.A.
 Aug 2, 20
 ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਨ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਵਾਨ
 ਹਾੜੀ ਭੇਜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁਖ-ਰੁਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਅਸੇ ਸਦੀਵ ਮਹਿਰਾ ਹੋ
 ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਤਕ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰ ਸਤੀਨ ਤੇ ਗਾਂਏ ਹਨ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
 ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਰਨ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦੇਵੇ ਸਹੀ !
 ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦੇਵੋ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਿਤ ਉਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ
 ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰੇ ਜਾਂਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਰ
 ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬੀਬੀ ਲਖਮਨ ਕੌਰ
 ਵਸਤੇ ਕਪੜੇ ਭੇਜੇ ਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਚੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
 ਹੋਰ 26 ਰੁਪਏ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ 1250 ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੈਂ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦੀ
 ਆਰ ਭੇਜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਤਾ ਛੇਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਮਿਲ ਜਾਨ
 ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰੀਆ ਸਿੰਘ ਜੀ
 ਤੇ ਬੀਬੀ ਲਖਮਨ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਹਾੜੀ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ
 ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਖੈਰਤ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਪਰਮ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ
 ਮੇਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੀ ਪਰਮ ਪਰਵਾਨ ਰਹੇਗਾ
 ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਆਪ ਮੈਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੈਰਤ ਤਸਵੀਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਭੇਜ
 ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕਪੜੇ ਪੱਗ ਕੇ ਅਮਰਿਤਸਰ ਜਾ ਤਸਵੀਰ ਉਤਾਰ
 ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ
 ਆਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ
 (ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼) ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਗਾਂਏ ਤੇ ਸਰਬਤ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ
 ਆਪ ਤੇ ਪਤਾ ਰਹੇਗੀ

Document # 9

Ik Ongkar Satgur Parsad

P.O. Box 85, Astoria, Oregon, U.S.A.
 Aug. 2, 20.

Submitted to Bhai Boota Singh Ji:

Dear Father, my greetings to you. I am hale and hearty in all respects, and I always pray to Guru Gobind Singh Ji for your well-being. I have not received any letter from you during the last 3-4 months. I do not know why. I hope all is well with you! Kindly send your replies promptly. I wait for your letter daily, and get worried if it is delayed. Hopefully in future you will be kind enough (to reply immediately).

Four months have elapsed since I sent some cloth for Bibi Lachhman Kaur. As yet, I do not know if you received it. Further, on June 26, I sent to you a check of Rupees 1250 (one thousand two hundred fifty). On receipt, please inform immediately. And I shall send more on hearing from you.

I hope brothers, Jagat Singh and Rulia Singh, and Bibi Lachhman Kaur are in good health, and trust that they are attending to you with much affection and enthusiasm. Please extend my hearty love to them.

My dear Dad, Can you get yourself photographed and send me your sacred photo? Please wear nice clothes and go to Amritsar to get yourself photographed. It will be very kind of you if you do so. I am always very anxious to see you. Please reply soon. I request. Greetings to all.

Your son,
 Bhagat Singh